

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 24.01.23

थाना सदर बाजार पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा,

शातिर चोर गिरफ्तार, गाडी वर्कशाप से चोरी गये 02 LPG गैस सिलेण्डर व रिफिलिंग मशीन व बैटरी व ऑटो बरामद ।

श्री एस. आनन्द, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री अखण्ड प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी नगर पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा किया गया।

दि 23.01.23 को श्री अनूप सक्सेना पुत्र श्री सीताराम सक्सेना मो 0 वाडूजई-प्रथम तुलसी कालोनी थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर द्वारा थाना पर सूचना दी गयी कि दि 19/01/23 की रात्रि को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वर्कशाप का ताला तोड़ कर दो इण्डेन गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफिलिंग मशीन तथा एक बैटरी फास्ट ट्रेक कंपनी को चोरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु 0अ0सं 62/2023 धारा 380/457 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना का अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में टीम गठित पुलिस टीम द्वारा आज दि 23.01.23 की रात्रि अभि 0 शानू उर्फ अनुज सक्सेना पुत्र मनोज सक्सेना नि 0 मदराखेल लोहारो वालो चौराहा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष को श्री ब्हीलर ऑटो सं 0 UP 27 AT 0285 में रखे समान दो इण्डेन गैस सिलेण्डर SR.NO-313309,906429T व एक गैस रिफिलिंग मशीन लोहा जिसमें काले रंग का लगभग दो मीटर केबिल जिसमें चुटकी जुडी है व एक बैटरी जिस पर फास्ट ट्रेक मोडल 250120 व SR.NO-2707210375 को लोड किये हुए मोहनगंज रेलवे फटकिया से गिरफ्तारी किया गया। श्री ब्हीलर ऑटो सं 0 UP 27 AT 0285 को सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1-शानू उर्फ अनुज सक्सेना पुत्र मनोज सक्सेना नि 0 मदराखेल लोहारो वालो चौराहा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-

1. 02 इण्डेन गैस सिलेण्डर (खाली) SR.NO-313309,906429T
2. एक गैस रिफिलिंग मशीन लोहा जिसमें काले रंग का लगभग दो मीटर केबिल जिसमें चुटकी जुडी है।
3. एक बैटरी जिस पर फास्ट ट्रेक मोडल 250120 व SR.NO-2707210375 अंकित है।
4. श्री ब्हीलर ऑटो सं 0 UP 27 AT 0285 (सीज शुदा)

पुलिस टीम -

1. श्री संजीव कुमार चौकी प्रभारी सदर बाजार थाना सदर बाजार शाहजहापुर
2. हे 0का 0 436 राजवीर सिंह थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर
3. का 0 2227 अरूण कुमार तोमर थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर